

## अफ्रीका की रफिट वैली और एक नए महासागर बेसनि का नरिमाण

### प्रलिमिंस के लयि:

लाल सागर, रफिट वैली, न्युबयिन अफ्रीकी प्लेट, अरेबयिन प्लेट, अदन की खाड़ी ।

### मेन्स के लयि:

टेक्टोनिक प्लेट्स, अफ्रीकी प्लेट्स में दरार के लयि ज़मिमेदार कारक ।

## चर्चा में क्यों?

वर्ष 2020 में एक अध्ययन से पता चला है कि अफ्रीकी महाद्वीप के धीरे-धीरे अलग होने से एक नए महासागर बेसनि का नरिमाण हो रहा है ।

- यह पूरवी अफ्रीकी [रफिट घाटी](#) के कारण है, जो 56 किलोमीटर तक फैली हुई है और वर्ष 2005 में इथियोपियाई रेगसितान में दखिाई दी थी

## अफ्रीका की प्लेटों के खसिकने के लयि ज़मिमेदार कारक:

### ■ कारक:

- तीन प्लेटें- न्युबयिन अफ्रीकी प्लेट, सोमालियाई अफ्रीकी प्लेट और अरेबयिन प्लेट अलग-अलग गति से वभिाजति हो रही हैं ।
- अरेबयिन प्लेट प्रतविरष लगभग एक इंच की दर से अफ्रीका से दूर जा रही है, जबकि दो अफ्रीकी प्लेटें प्रतविरष आधा इंच से 0.2 इंच के मध्य या और भी धीमी गति से अलग हो रही हैं ।
  - पछिले 30 मिलियन वर्षों में अरेबयिन प्लेट धीरे-धीरे अफ्रीका से दूर हो रही है, जिसके कारण पहले से ही [लाल सागर](#) और अदन की खाड़ी का नरिमाण हुआ है ।

### ■ संभावति परणाम:

- चूँकि सोमाली और नूबयिन टेक्टोनिक प्लेटें एक-दूसरे से अलग हो रही हैं, इसलयि इस दरार से एक छोटे महाद्वीप का नरिमाण हो जाएगा, जिसमें वर्तमान सोमालिया, केन्या, इथियोपिया एवं तंजानिया के कुछ हसिसे शामिल होंगे ।
- अदन की खाड़ी और लाल सागर अंततः इथियोपिया के अफार कषेत्र और पूरवी अफ्रीकी भ्रंश घाटी में बाढ़ लाकर एक नए महासागर का नरिमाण करेंगे ।
  - इस नए महासागर के परणामस्वरूप पूरवी अफ्रीका अपनी अद्वितीय भौगोलिक और पारसिथतिक वशिषताओं के साथ एक अलग छोटा महाद्वीप बन जाएगा ।
- सोमाली और न्युबयिन वविरतनिक प्लेटों के अलग होने से नया महासागर बेसनि बनाने में 5 से 10 मिलियन वर्ष लगेंगे ।

### ■ वर्तमान स्थिति:

- हालाँकि कुछ समय से भ्रंशन की प्रक्रिया हो रही है, संभावति वखिंडन वर्ष 2018 में दुनिया भर में तब चर्चा में आया जब केन्याई भ्रंश घाटी में बड़ी दरार देखी गई ।

## इस भ्रंशन के अवसर और चुनौतियाँ:


### ■ अवसर:

- नई तटरेखाओं के उभरने से देशों में आर्थिक वकिस के असंख्य अवसर (जैसे- युगांडा और जाम्बिया जैसे लैंडलॉक देश) उपलब्ध होंगे, क्योंकि इसके कारण इन देशों की व्यापार के लयि नए बंदरगाहों तक पहुँच होगी, साथ ही [मतस्यन](#) कषेत्र और इंटरनेट बुनयादी ढाँचा भी उपलब्ध हो जाएगा ।

### ■ चुनौतियाँ :

- वसिथापन और पर्यावास का नुकसान: समुदायों का वसिथापन, बसतियों और वभिन्न वनस्पतियों एवं जीवों के नवासि स्थान का नुकसान जैसी [पर्यावरणीय कषति](#) का सामना करना पड़ेगा ।

- लोगों की नक़ासी और जीवन की संभावित हानि इस प्राकृतिक घटना का एक अनपेक्षित परिणाम होगा।
- वसिथापन और पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2015 तक अफ्रीका में 15 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से वसिथापित हुए थे।
- प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव: तेज़ी से हो रहे **शहरीकरण** और बस्तियों में वृद्धि प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डालती हैं जिससे जल, ऊर्जा और भोजन की उपलब्धता की समस्या उत्पन्न होती है।
  - अनयिंत्रित अपशष्टि नपिटान भी एक गंभीर चिंता का वषिय है।
- नए फॉल्ट लाइन्स: नयुबयिन और सोमाली प्लेटों के अलग होने से नए फॉल्ट लाइन्स, दरारें बन सकती हैं अथवा पहले से मौजूद फॉल्ट लाइनें पुनरसक्रयि हो सकती हैं, जिससे भूकंपीय गतिविधियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।



//

## भ्रंश:

- पृथ्वी के **लथिसफीयर** को कई **टेक्टॉनिक प्लेटों** में वभिजति कयिा गया है जो एक-दूसरे की तुलना में अलग-अलग गति से चलती हैं।
  - **वविरतनकि बल** न केवल प्लेटों को गति प्रदान करता है बल्कि **इस बल के कारण उनमें दरार पड़ने की भी संभावना होती है, जिससे संभावित रूप से नई प्लेट सीमाओं का निर्माण होता है।**
- भ्रंश एक भूगर्भीय प्रक्रिया है जिसमें एक एकल टेक्टॉनिक प्लेट **दो या दो से अधिक प्लेटों में वभिक्त हो जाती है** जो अपसारी प्लेट सीमाओं से अलग होती है।
  - इस प्रक्रिया के कारण समतल नचिले भूमि क्षेत्र (Lowland Region) का उद्भव होता है जिसे **रफिट घाटी** के रूप में जाना जाता है।
  - उदाहरण: **नर्मदा दरार घाटी (भारत), बैकाल दरार घाटी (रूस)।**

## ग्रेट रफिट वैली:

- द ग्रेट रफिट वैली एक वशाल भूवैज्ञानिक संरचना है जो **उत्तरी सीरिया से लेकर पूर्वी अफ्रीका के मध्य मोज़ाम्बिक तक लगभग 6,400 किलोमीटर तक वसित्त है।**
- **जॉर्डन नदी** इस घाटी से निकलती है और अंततः इज़रायल तथा जॉर्डन के बीच की सीमा पर मृत सागर में मलि जाती है।
- अदन की **खाड़ी दरार की पूर्व की ओर नरिंतरता में है** और इस बदि से दरार दक्षिण-पूर्व की ओर **हिंद महासागर के मध्य-महासागरीय रजि के हसिसे के रूप में फैली हुई है।**
- पूर्वी अफ्रीका में **घाटी पूर्वी दरार और पश्चिमी दरार में वभिजति होती है।** पश्चिमी दरार, जिसे **अल्बर्टीन दरार** के रूप में भी जाना जाता है, में

दुनिया की कुछ सबसे गहरी झीलें हैं।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य बड़ी प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। क्यों? (2013)

1. यह एक रेखीय दरार घाटी में स्थित है।
2. यह वधिय और सतपुड़ा के बीच बहती है।
3. भूमिका ढाल मध्य भारत से पश्चिम की ओर है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (a)

स्रोत: डाउन टू अर्थ

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/africa-s-rift-valley-and-the-creation-of-a-new-ocean-basin>

